

(37)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1281]
No. 1281]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 26, 2006/कार्तिक 4, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1820(अ).—भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उप-धाराएं (1), (3) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की दिनांक 8 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या का. आ. 772(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (i) के तहत स्थापित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् का एतद्वारा पुनर्गठन करती है तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित सदस्यता की प्रकृति के साथ इसके सदस्य के रूप में उन्हें नामित करती है, नामतः —

क्र० सं० (1)	सदस्य का नाम तथा पता (2)	सदस्यता की प्रकृति (3)
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा (क) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
1.	डा० एस० जयकुमार सिंह, निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं, मणिपुर सरकार, इम्फाल।	सदस्य
2.	डा० एस० के० दासगुप्ता, निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं, पशु संसाधन और पशु स्वास्थ्य निदेशालय,	सदस्य

	न्यू सैक्रेटरिएट बिल्डिंग (तीसरा तल), 1, किरन शंकर राय रोड, कोलकाता-700001	
3.	डा० बी० सी बिष्ट, निदेशक, पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, पशुधन भवन, शिमला-171005	सदस्य
4.	डा० एल० मोहन, निदेशक पशुपालन, 10-20-289, शांति नगर, हैदराबाद-500028 आंध्र प्रदेश	सदस्य
5.	डा० बी० मेहतो, निदेशक, पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं निदेशालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन, सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(ख) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
6.	डा० आर० एन० श्रीनिवास गौड़ा, उप कुलपति, कर्नाटक पशुचिकित्सा और मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, नन्दी नगर, पो० बा० नं० 6 बिदर	सदस्य
7.	डा० ए० पी० सिंह, डीन, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य
8.	डा० आर० जे० शर्मा, डीन, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान कालेज, पंतनगर	सदस्य
9.	डा० के० एस० रॉय, डीन, पशुचिकित्सा मेडिसिन कालेज, लुधियाना	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(ग) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित सदस्य
10.	डा० धर्मेश्वर दास, संयुक्त निदेशक(एकेडेमिक), भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, (उत्तर प्रदेश)	सदस्य

		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(घ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
11.	डा० एस० के० बंधोपाध्याय, पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य(पदेन)
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(ड.) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
12.	डा० ए० बी० नेगी, संयुक्त आयुक्त(पशुधन स्वास्थ्य निगरानी), पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(च) के तहत भारतीय पशुचिकित्सा परिसंघ द्वारा नामित सदस्य
13.	भारतीय पशुचिकित्सा परिसंघ का प्रतिनिधि	आईवीए वर्तमान में कार्यरत नहीं है। दो ग्रुप। चुनाव होने हैं।
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(छ) के तहत चुने गए सदस्य
14.	डा० अखिलेश कमल, 42, अमृत नगर, एनडीएसई-1 के पीछे, नई दिल्ली।	सदस्य
15.	डा० सज्जन सिंह, 5/III, सीआईआरबी, सिरसा रोड, हिसार-125001	सदस्य
16.	डा० अमृत लाल चौधरी, कमरा सं० 45, आठवां तल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़	सदस्य
17.	डा० सुरिन्द्र सिंह अहलावल, सी-12, ओल्ड कैम्पस, एच ए यू, हिसार-125004, हरियाणा	सदस्य
18.	डा० वी० के० तनेजा, उप महानिदेशक(ए एस), आई सी ए आर, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
19.	डा० विश्वनाथ मारुतिराव भुक्तर, 1, रजनी अपार्टमेंट, शिटोले मारलेट के पीछे, आनंदनगर, ओल्ड संगवी, पुणे-411007	सदस्य

20.	डा० शिव हरी वर्मा, रजिस्ट्रार, दिल्ली पशुचिकित्सा परिषद, राजेश पायलट पशुचिकित्सा हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110044	सदस्य
21.	डा० रामलिंगा राजू एस० एचओ२, श्री कृष्णा बालाजी अपार्टमेंट, बालाजी नगर, मेहदिपटनम, हैदराबाद-500028	सदस्य
22.	डा० के० जी० सुमा, एक्यूक्यूएल. डीएएच, पशुपालन निदेशालय, विकास भवन(पी ओ) त्रिवेन्द्रम, केरल	सदस्य
23.	डा० सुशोवन राय, एमआईजी-647, पदमनाभपुर, दुर्ग-491001, छत्तीसगढ़	सदस्य
24.	डा० राजेन्द्र सिंह खोखर, बदरखा गांव, चापरावल, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(ज) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
25.	डा० एस० के० राय, अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य पशुचिकित्सा परिषद, भुवनेश्वर	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(झ) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
26.	डा० एम० मुरुगन, अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य पशुचिकित्सा परिषद, चेन्नई	सदस्य
		खंड 3 के उपखंड (3) की धारा(ट) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य
27.	डा० अनूप भौमिक, सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, अगस्त क्रांति भवन, द्वितीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066	सदस्य(पदेन)

[फा. सं. 52-39/2003-एलडीटी(वीसी)]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1820(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1), (3) and (6) of Section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying) number S.O. 772 (E), dated the 8th July, 2003, the Central Government hereby re-constitutes the Veterinary Council of India established under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act and notifies the following persons as its members along with the nature of membership mentioned against their names, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

Serial Number (1)	Name and address of Member (2)	Nature of membership (3)
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Members nominated by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of section 3:

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Dr. S. Jayakumar Singh
Director, Animal Husbandry &
Veterinary Services, Government of
Manipur, Imphal. | Member |
| 2. | Dr. S.K. Dasgupta,
Director of Animal Husbandry &
Veterinary Services,
Directorate of Animal Resources and
Animal Health,
New Secretariat Buildings(3 rd Floor)
1, Kiran Shankar Roy Road,
Kolkata- 700 001 | Member |
| 3. | Dr. B.C. Bist,
Director
Department of Animal Husbandry,
Government of Himachal Pradesh
Pashudhan Bhavan,
Shimla-171005 | Member |
| 4. | Dr. L. Mohan,
Director of Animal Husbandry,
10-20-289, Shanti Nagar,
Hyderabad- 500028
Andhra Pradesh | Member |
| 5. | Dr. B. Mahto
Director,
Directorate of Animal Husbandry and
Veterinary Services,
Andaman and Nicobar Administration,
Secretariat, Portblair. | Member |

3408 GI/06-2

		Members nominated by the Central Government under clause (b) of sub-section (3) of section 3:
6.	Dr. R.N. Srinivas Gowda Vice Chancellor, Karnataka Veterinary Animal and Fisheries Sciences University, Nandi Nagar, P.B.No. 6, BIDAR,	Member
7.	Dr. A.P. Singh Dean, College of Vety. Science & AH, Jabalpur, Madhya Pradesh.	Member
8.	Dr. R.J. Sharma Dean, College of Veterinary and Animal Science, Pant Nagar.	Member
9.	Dr. K.S. Roy Dean, College of Veterinary Medicine Ludhiana	Member
		Member nominated by the Indian Council of Agricultural Research under clause (c) of sub-section (3) of section 3:
10.	Dr. Dharmeshwar Das Joint Director (Academics) Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar (UP)	Member
		Member nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of section 3:
11.	Dr. S.K. Bandyopadhyay Animal Husbandry Commissioner Government of India Krishi Bhawan, New Delhi.	Member (ex-officio)
		Member nominated by the Central Government under clause (e) of sub-section (3) of section 3:
12.	Dr. A.B. Negi Joint Commissioner (Livestock Health Surveillance) Department of Animal Husbandry & Dairying Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi.	Member
		Member nominated by the Indian Veterinary Association under Clause (f) of sub-section (3) of section 3:
13.	A representative from Indian Veterinary Association	(IVA is at present non functional. Two groups. Elections have to be held.)

Members elected under clause (g) of sub-section (3) of section 3:

- | | | |
|-----|---|--------|
| 14. | Dr. Akhilesh Kamal
42, Amrit Nagar,
Behind NDSE-I,
New Delhi. | Member |
| 15. | Dr. Sajjan Singh
5/III, CIRB, Sirsa Road,
Hissar- 125 001. | Member |
| 16. | Dr. Amrit Lal Chaudhary
Room No. 45, 8 th Floor
Haryana Civil Secretariat,
Chandigarh. | Member |
| 17. | Dr. Surinder Singh Ahlawat
C-12, Old Campus,
HAU, Hissar- 125004
Haryana. | Member |
| 18. | Dr. V.K. Taneja
Deputy Director General(AS),
ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi. | Member |
| 19. | Dr. Vishwanath Marutirao Bhuktar
1, Rajani Apartment, Behind Shitole Market,
Anandnagar, Old Sangvi, Pune- 411 007. | Member |
| 20. | Dr. Shiv Hari Verma
Registrar,
Delhi Veterinary council,
Rajesh Pilot Veterinary Hospital Complex,
Tugalkabad,
New Delhi-110044. | Member |
| 21. | Dr. Ramalinga Raju S.
HO2, Sri Krishna Balaji Apartment,
Balaji Nagar, Mehdiapatnam,
Hyderabad- 500 028. | Member |
| 22. | Dr. K.G. Suma
Aqql.DAH,
Directorate of Animal Husbandry,
Vikas Bhawan(PO)
Trivandrum,
Kerala. | Member |
| 23. | Dr. Sushovan Roy
MIG-647,
Padmanabhpur,
Durg- 491 001
Chhatisgarh. | Member |
| 24. | Dr. Rajendra Singh Khokhar,
Village Badarkha
Chapraull,
Baghat district
Uttar Pradesh. | Member |

Member nominated by the Central Government under clause (h) of sub-section (3) of section 3:

25. Dr. S.K. Roy
President, Orissa State Veterinary Council,
Bhubaneswar.

Member

Member nominated by the Central Government under clause (i) of sub-section (3) of section 3:

26. Dr. M. Murugan
President,
Tamil Nadu State Veterinary Association
Chennai.

Member

Member nominated by the Central Government under clause (j) of sub-section (3) of section 3:

27. Dr. Anup Bhaumik
Secretary, Veterinary Council of India,
August Kranti Bhawan, Second Floor,
Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066.

Member (ex-officio)

[F.No.52-39/2003-LDT(VC)]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.